

SEC/2023

September 12, 2023

BSE Limited Phiroze Jejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Stock Code: 500510	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Stock Code: LT
--	--

Dear Sirs,

Sub: Newspaper advertisement – Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have enclosed copies of the advertisement published in the Financial Express, Jansatta and Loksatta newspapers today i.e. September 12, 2023 in respect of the addendum to the Public Announcement dated August 26, 2023, published on August 28, 2023 (“**Addendum**”).

The Addendum has been made available on the Company’s website at www.larsentoubro.com, websites of the Managers at www.jmfl.com and www.axiscapital.co.in, website of the Registrar to the buyback at www.karsima.kfintech.com and website of SEBI at www.sebi.gov.in.

This is for your information and records.

For Larsen & Toubro Limited

Sivaram Nair A
Company Secretary
(M. No. - F3939)

Encl.: as above

CARBON-FREE ENERGY STORAGE SOLUTIONS

Essar Group, Saudi firm tie up for green steel project

The firms will also explore other potential projects

RAJESH KURUP
Mumbai, September 11

ESSAR GROUP HAS entered into an agreement with Saudi Arabia's Desert Technologies (DT), an independent solar PV and smart infrastructure holding company, to develop renewable energy solutions for Essar Group's Green Steel Arabia (GSA) project.

According to the agreement, DT and Essar will develop solutions for renewable energy generation and storage for Essar's



GOING GREEN

- DT and Essar will develop solutions for renewable energy generation and storage for Essar's Flat Steel Complex in Saudi Arabia
- The companies will also explore opportunities for other potential projects
- Essar's will be the region's first green steel project

Flat Steel Complex in Saudi Arabia. The companies will also explore opportunities for other potential projects, Essar Group said in a statement.

According to Naushad Ansari, Country Head for Essar Group in KSA: "Essar is currently looking at investing about \$4.5 billion in setting up

an integrated steel plant in Ras Al Khair, Saudi Arabia. This partnership with DT will help us to access green energy and carbon free energy storage solutions". DT is a developer of PV, investor, EPC and O&M contractor. The firm is also a PV solar panel manufacturer and energy storage systems integrator.

Essar project's is set to be the region's first green steel project. It will have a direct reduced iron capacity of 5 million tonne per annum (MTPA), comprising two modules of 2.50 MTPA each and a 4 MTPA hot strip capacity. It will also have a 1 million tonne of cold rolling capacity, along with galvanizing and tin plate lines.

Tata Steel sets up new facility in UP

PRESS TRUST OF INDIA
Ghaziabad, September 11

TATA STEEL ON Monday inaugurated a fully automated construction service centre in Uttar Pradesh to manufacture reinforced products.

The centre in Ghaziabad, which is the company's second such unit after Cuttack in Odisha, will also provide solutions to the construction

The centre in Ghaziabad, which is the company's second such unit after Cuttack in Odisha, will also provide solutions to the construction industry, Ashish Anupam, Chairperson, Marketing & Sales, Long Products, Tata Steel, said while addressing the media here.

industry, Ashish Anupam, Chairperson, Marketing & Sales, Long Products, Tata Steel, said while addressing the media here.

"The company has partnered with channel partner Vikrant Ispat Udyog to launch its first such service centre in western UP to offer customised reinforcement products and solutions to the construction industry," he said.

This facility will produce customised "cut and bend Tata Tison TMT rebars, along with coupler threading".

The unit provides downstream solutions like welded

wire mesh and bore pile cages to the construction industry.

The fully automatic downstream manufacturing facility has a production capacity of 3,500 TPM (tonnes per month), and the company plans to set up another 10 such centres at different locations in the country.

In June 2023, Tata Steel inaugurated a similar fully automated construction service centre in Cuttack, Odisha.

Tiger Global backed Chargebee fires 10% workforce

ANEESS HUSSAIN
Bengaluru, September 12

CHENNAI-BASED SAAS-based subscription management platform has reportedly laid off 10% of its global employees, affecting 100-120 staffers. The company had, in November 2022, laid off 10% of its workforce, citing macro-economic conditions, making the recent round of layoffs the second at the company in less than a year.

The recent round of layoffs is the second in less than a year. The company has claimed to offer severance packages to the affected employees in accordance with labour laws in different countries, according to sources. Chargebee did not respond to a query seeking clarification.

Chennai and San Francisco-based Chargebee was founded in 2011 by Subramanian, Saravanan KP, Thiagarajan T, and Rajaraman Santhanam, and offers billing and subscriptions for startups and large enterprises.

It claims to have over 4,000 customers, which include Doodle, Calendly, Freshworks and Okta.

CAPTAIN POLYPLAST LTD.

Regd. Office : UL-25, Royal Complex, Bhulkhana Chowk, Dhebar Road, Rajkot-360002, Gujarat Phone: +91-2827-253006, 252056, Email : info@captainpolyplast.in, Website : www.captainpolyplast.com CIN NO : L25209GJ1997PLC031985

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS REGARDING 26TH ANNUAL GENERAL MEETING

(1) The 26th (Twenty Sixth) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visuals Means ("OAVM") on Saturday, 30th September, 2023 at 4:00 P.M. (IST) in compliance with all the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 Dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 Dated 15th January, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI circular") (collectively referred to as 'relevant circulars') to transact the business(es) set out in the notice calling 26th AGM. Members will be able to attend the meeting through VC or OAVM. Members participating through VC or OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section of 103 of the Companies Act, 2013.

(2) In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the FY 2022-23 will be sent electronically to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.captainpolyplast.com and on the website of stock exchange where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com. Members can attend and participate in AGM, for joining the AGM, instructions are provided in the Notice of AGM. Further, Members who do not register their email addresses with the RTA/ Depository Participants will not be able to participate in the meeting.

3. Manner of registering / updating email addresses:

(a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to (compliance@captainpolyplast.in).

(b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to (compliance@captainpolyplast.com).

(4) Manner of casting vote(s) through e-voting: The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of AGM.

(5) Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of 26th AGM and particular instructions for joining the 26th AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the 26th AGM.

(6) This is to inform you all that Company has fixed 22nd SEPTEMBER, 2023 as cutoff date for the purpose of voting at AGM to be held on 30th SEPTEMBER, 2023.

(7) Further The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24TH SEPTEMBER, 2023 to 30TH SEPTEMBER, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 26th AGM.

(8) The remote e-voting period commences on WEDNESDAY, 27.09.2023 (9:00 am) and ends on FRIDAY 29.09.2023 (5:00 pm).

BY ORDER OF THE BOARD
FOR CAPTAIN POLYPLAST LIMITED

SD/-
KHYATI MEHTA
COMPANY SECRETARY

PLACE: RAJKOT
DATE: 05.09.2023

Larsen & Toubro Limited, L&T House, Ballard Estate, Mumbai -400 001
Tel: +91 22 6752 5656, Fax: +91 22 6752 5858
Website: www.larsentoubro.com | Email: IGRC@larsentoubro.com
CIN: L99999MH1946PLC004768 | Company Secretary: Mr. Sivaram Nair A

ADDENDUM TO PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED AUGUST 28, 2023, PUBLISHED ON AUGUST 28, 2023 FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF LARSEN & TOUBRO LIMITED (THE "COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES ON PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE ("TENDER OFFER") USING THE STOCK EXCHANGE MECHANISM AS PRESCRIBED UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS").

- The Board of Directors ("Board") which expression shall include any committee constituted by the Board to exercise its powers, including powers conferred by this Resolution, at its meeting held on July 25, 2023, approved, subject to approval of the shareholders, the buyback by the Company of up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) equity shares each having a face value of ₹ 2/- (Rupees Two Only) of the Company ("Equity Shares"), representing up to 2.37% of the total paid-up Equity Shares of the Company, at a maximum price of upto ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand Only) per Equity Share ("Buyback Price") payable in cash for an aggregate amount of up to ₹ 10,00,00,000 (Rupees Ten Thousand Crore Only) ("Buyback Size"), excluding Transaction Costs, which represents 14.06 % and 11.97 % of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements, respectively, as on March 31, 2023, (which is within the statutory limits of 25% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company, based on both standalone and consolidated financial statements of the Company), from shareholders of the Company as on the record date i.e. September 12, 2023 as determined by the buyback committee ("Buyback Committee") ("Record Date") on a proportionate basis through the "tender offer" route as prescribed under the Buyback Regulations (the "Buyback"). Further, the shareholders of the Company approved the Buyback, by way of a special resolution, through a postal ballot by remote e-voting on August 25, 2023. Subsequently, the Buyback Committee at its meeting held on August 26, 2023, subject to the final buyback price as may be determined in accordance with Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, determined the specific Buyback Price of ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand Only) per Equity Share.
- In terms of Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, in case of the buy-back through the tender offer, the Board can till one-working day prior to the Record Date, increase the Buyback Price and decrease the number of securities proposed to be bought back, such that there is no change in the Buyback Size.
- In connection with the Buyback, in accordance with the Buyback Regulations, a public announcement (the "Public Announcement") dated August 26, 2023 was published on August 28, 2023 in all editions of Financial Express, an English national daily, and Jansatta, a Hindi national daily, and Mumbai edition of LokSatta, a regional language daily. In the Public Announcement, the Buyback Price was identified as ₹ 3,000/- (Rupee Three Thousand only) per Equity Share and the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back was up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) Equity Shares.
- Pursuant to Regulation 5(via) of the Buyback Regulations and the resolution passed by the Buyback Committee on September 11, 2023:
 - The Buyback Price has been increased from ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand only) per Equity Share to ₹ 3,200/- (Rupees Three Thousand Two Hundred only) and
 - The maximum number of Equity Shares proposed to be bought back by the Company has been reduced from 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) fully paid-up Equity Shares to 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) fully paid-up Equity Shares representing up to 2.22% of the total paid-up equity shares of the Company.
- In this context, the Company is making an addendum to the Public Announcement. This addendum ("Addendum") is in continuation of and should be read in conjunction with the Public Announcement published in all editions of Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Mumbai edition of LokSatta (Marathi) on August 28, 2023 in connection with the offer for Buyback of Equity Shares of the Company. The capitalized terms and abbreviations used in this Addendum have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement, unless otherwise specified.
- Equity Shareholders are requested to note the following amendments in the Public Announcement:

6.1 The opening paragraph of the Public Announcement shall be replaced with:

"OFFER TO BUYBACK UP TO 3,12,50,000 (THREE CRORE TWELVE LAKH FIFTY THOUSAND) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2/- (RUPEES TWO ONLY) EACH OF THE COMPANY FROM THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES AS ON THE RECORD DATE ON A PROPORTIONATE BASIS BY WAY OF TENDER OFFER ROUTE USING STOCK EXCHANGE MECHANISM AT A PRICE OF ₹ 3,200/- (THREE THOUSAND TWO HUNDRED ONLY) PER EQUITY SHARE ("BUYBACK OFFER PRICE" OR "BUYBACK PRICE") FOR AN AGGREGATE CONSIDERATION OF UPTO ₹ 10,00,00,000 (RUPEES TEN THOUSAND CRORE ONLY)"

6.2 The paragraph 1.1 of the Public Announcement shall be replaced with the following:

"The Board of Directors of the Company at its meeting held on July 25, 2023 ("Board") which expression shall include any committee constituted by the Board to exercise its powers, including the powers conferred by this Resolution) had approved, subject to approval of the shareholders, the buyback by the Company of 3,33,33,333 of its fully paid-up equity shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two Only) each ("Equity Shares"), from the members of the Company at a maximum price of up to ₹ 3,000/- (Three Thousand only) per Equity Share, subject to any increase to the Buyback Offer Price as may be approved by the Board and/or the committee thereof, payable in cash for an aggregate consideration of up to ₹ 10,00,00,000 (Rupees Ten Thousand Crore Only) ("Buyback Size") excluding transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as, Buyback tax, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc. which will not exceed 25% of the aggregate of the paid-up share capital and free reserves as per the audited standalone or consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2023, whichever sets out a lower amount, out of the free reserves or securities premium account of the Company and/or such other source as may be permitted by the Buyback Regulations or the Companies Act, 2013, as amended ("Act"), from the shareholders of the Company, as on the record date i.e. September 12, 2023 as determined by the buyback committee ("Buyback Committee") ("Record Date"), on a proportionate basis, through the Tender Offer route using stock exchange mechanism as prescribed under the Buyback Regulations. Subsequently, the Buyback Committee at its meeting held on September 11, 2023 pursuant to Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, increased the specific price at which the Buyback may be made ("Specific Buyback Price") from ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand only) per Equity Share to ₹ 3,200 (Rupees Three Thousand Two Hundred only) and altered the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back by the Company and reduced the same from up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three only) fully paid-up Equity Shares to up to 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) fully paid-up Equity Shares representing up to 2.22% of the total paid-up equity shares of the Company. ("Buyback")."

6.3 Paragraph 1.5 of the Public Announcement shall be replaced with:

"As per Regulation 4(i) of the Buyback Regulations, the Buyback Size is within the statutory limit of 25% of the aggregate of the fully paid-up capital and free reserves of the Company based on the standalone financial statements or consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2023, whichever sets out a lower amount. The Equity Shares proposed to be bought represent 2.22% of the total number of Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company, as on March 31, 2023."

6.4 Paragraph 3 of the Public Announcement shall be replaced with:

"The Company proposes to buyback up to 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) Equity Shares."

6.5 Paragraph 4.1 of the Public Announcement shall be replaced with:

"The Equity Shares of the Company are proposed to be bought back at ₹ 3,200/- (Rupees Three Thousand Two Hundred only) per Equity Share. The Buyback Offer Price has been arrived at after considering various factors including but not limited to the earnings per share, price earnings ratio, impact on the net worth of the Company, the trends in the volume weighted average prices and the closing price of the Equity Shares at BSE and NSE where the Equity Shares are listed and other financial parameters. The final Buyback Offer Price has been finalized by the Buyback Committee of the Board appointed for this purpose based on a premium over the daily average of the closing price on BSE and NSE in the immediately preceding two weeks" and the date of Buyback Committee meeting held on Monday, September 11, 2023."

6.6 Paragraph 4.2 of the Public Announcement shall be replaced with:

- The Buyback Price represents:
- Premium of 38.48% and 38.00% to the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and on NSE, respectively, during the three months preceding July 20, 2023, being the date of intimation to the Stock Exchanges of the date of the Board Meeting to consider the proposal of the Buyback ("Intimation Date").
 - Premium of 28.30% and 28.30% over the closing price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, as on July 19, 2023, which is a day preceding the Intimation Date.
 - Premium of 16.57% and 16.57% over the daily average of the closing market price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, in the immediately preceding two weeks' prior to the date of Buyback Committee meeting.
 - Premium of 10.57% and 10.57% over the closing market price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, on the date of Buyback Committee meeting.

6.7 Paragraph 7.11 of the Public Announcement shall be replaced with:

The number of equity shares proposed to be purchased under the Buyback i.e. 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand), does not exceed 25% of the total number of equity shares in the paid-up equity share capital as on March 31, 2023

6.8 The maximum number of Equity Shares proposed to be purchased under the Buyback shall be replaced with:

"3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) Equity Shares"

7. Except as detailed in this Addendum, all other information and terms of Buyback as disclosed in the Public Announcement remain unchanged.

8. A copy of this Addendum will be available on the website of the Company at www.larsentoubro.com, websites of the Managers to the Buyback at www.jmf.com and www.axiscapital.co.in, website of the Registrar to the Buyback at www.karisma.kfintech.com, website of SEBI at www.sebi.gov.in and the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors of Larsen & Toubro Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
S. N. Subrahmanyam Chief Executive Officer & Managing Director DIN: 02255382	R. Shankar Raman Whole-time Director & Chief Financial Officer DIN: 00019798	Mr. Sivaram Nair A Company Secretary & Compliance Officer Membership No: F3939

Place: Mumbai
Date: September 11, 2023

...continued from previous page.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<p>SBICAPS SBI Capital Markets Limited 1501, 15th floor, A & B Wing, Parinee Crescenzo, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Maharashtra, India Tel.: +91 22 4006 9807 E-mail: yatra.ipo@sbicaps.com Investor Grievance E-Mail: investor.relations@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com Contact Person: Sambit Rath / Karan Savardekar SEBI Registration No.: INM00003531</p>	<p>DAM CAPITAL DAM Capital Advisors Limited One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No. 1511, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 Maharashtra, India Tel.: +91 22 4646 4728 E-mail: yatra.ipo@damcapital.in Investor Grievance E-Mail: complaint@damcapital.in Website: www.damcapital.in Contact Person: Chandresh Sharma SEBI Registration No.: MB/INM00011336</p>	<p>IIFL SECURITIES IIFL Securities Limited 10th Floor, IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg Lower Parel (West), Mumbai 400 013 Maharashtra, India Tel.: +91 22 814 4728 E-mail: yatra.ipo@iiflcap.com Investor Grievance E-Mail: ig_ib@iiflcap.com Website: www.iiflcap.com Contact Person: Pinkesh Soni/ Dhruv Bhagwat SEBI Registration Number: INM00010940</p>
<p>LINK Intime Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg Vikhroli (West), Mumbai 400083, Maharashtra, India Tel.: +91 22 810 811 4949 E-mail: yatra.ipo@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: yatra.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration No.: INR00004058</p>	<p>Darpan Batra YATRA ONLINE LIMITED Gulf Adiba, Plot No. 272, 4th Floor, Udyog Vihar, Phase - II, Sector - 20, Gurugram - 122008, Haryana, India Telephone: +91 124 4591700 E-mail: darpan.batra@yatra.com</p> <p>Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-credit of refund orders or non-credit of funds by electronic mode, etc. For all Offer related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLMs.</p>	

AVAILABILITY OF RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" beginning on page 31 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP will be made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the BRLMs, SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com, DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in and IIFL Securities Limited at www.iiflcap.com and on the websites of the Stock Exchanges, for BSE at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.yatra.com.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of Company, **YATRA ONLINE LIMITED:** Telephone: +91 22 4435770; **BRLMs: SBI Capital Markets Limited:** Telephone: +91 22 4006 9807; **DAM Capital Advisors Limited:** Telephone: +91 22 4202 2500 and **IIFL Securities Limited:** Telephone: +91 22 4646 4728; **Syndicate Member: SBICAP Securities Limited:** Telephone: +91 22 6931 6204; **Investec Capital Services (India) Private Limited:** Telephone: +91 22 6849 7400 and **Sharekhan Limited:** Telephone: +91 22 6750 2000 and at selected locations of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations participating in the Offer. ASBA Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SYNDICATE MEMBER: SBICAP Securities Limited, Investec Capital Services (India) Private Limited and Sharekhan Limited

SUB-SYNDICATE MEMBERS: Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd., Axis Capital Ltd., C. Entrum Broking Ltd., HDFC SECURITIES Ltd., ICICI Securities Ltd., IDBI Capital Markets & Securities Ltd., JM Financial Services Ltd., Keynote Capitals Ltd., KJMC Capital Market Services Ltd., Kotak Securities Ltd., LKP SECURITIES Ltd., Motilal Oswal Financial Services Ltd., NuVama Wealth and Investment Ltd., Prabhudas Lilladher Pvt.Ltd., Pravin Rattilal Share And Stock Brokers Ltd., Religare Broking Ltd., RR Equity Brokers Pvt. Ltd., SMC Global Securities Ltd. and YES SECURITIES (INDIA) Ltd.,

ESCROW COLLECTION BANK, REFUND BANK AND SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK AND SPONSOR BANK: Axis Bank Limited

UPI: UPI Bidders can Bid through UPI Mechanism.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For YATRA ONLINE LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Darpan Batra
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram, Haryana
Date: September 11, 2023

YATRA ONLINE LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated September 8, 2023 (the "RHP") with RoC on September 9, 2023. The RHP shall be made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLMs i.e., SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com, DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in and IIFL Securities Limited at www.iiflcap.com and the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the Company website at www.yatra.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" beginning on page 31 of the RHP. Potential investors should not rely on any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S and the applicable laws of each jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

सीआईएन नं: L32104DL1979PLC009590
पंजीकृत कार्यालय: डी-1081, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025
ईमेल: cs@pel-india.in, वेबसाइट: www.pel-india.in,
फोन: 120 2551556/7, फैक्स: 120 2524337

44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए दिनांक 11 अगस्त 2023 के नोटिस की निरंतरता में जारी किया जा रहा है, उक्त वार्षिक आम बैठक सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विड्युअल सामन ("ओवीपीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

मिडियम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के निर्देशों में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के समाप्त समय के संबंध में नीचे दिए गए सूचारों पर ध्यान दें।

रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:
पहले :

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 19 सितंबर, 2023 (मंगलवार) को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और 25 सितंबर, 2023 (सोमवार) को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्डेड लिधि (फुट-ऑफ लिधि) यानी 19 सितंबर, 2023 को सदस्यों/लामार्थी मालिकों के परिवर्तन में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार फुट-ऑफ लिधि, 19 सितंबर, 2023 को कंपनी की पुश्ता ब्युसिनेस रैपड ड्यूटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 19 सितंबर, 2023 (मंगलवार) को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी है और 24 सितंबर, 2023 (बुधवार) को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जिनके नाम रिकॉर्डेड लिधि (फुट-ऑफ लिधि) यानी 19 सितंबर, 2023 को सदस्यों/लामार्थी मालिकों के परिवर्तन में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार फुट-ऑफ लिधि, 19 सितंबर, 2023 को कंपनी की पुश्ता ब्युसिनेस रैपड ड्यूटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। एजीएम के नोटिस का यह शुद्धिपत्र एजीएम के नोटिस का एक अतिरिक्त अंग होगा जिसे कंपनी के शेयरधारकों को पहले ही प्रसारित किया जा चुका है और इसकी तारीख से, एजीएम का नोटिस हमेशा इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा।

यह शुद्धिपत्र फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में भी प्रकाशित किया जा रहा है तथा कंपनी की वेबसाइट लिंक: <https://pel-india.in/useful-investor-data/> पर भी उपलब्ध है। शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित या पूरक को छोड़कर एजीएम की सूचना की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
ह0 /-
स्थान : नोएडा
दिनांक : 11 सितंबर, 2023

वृवा मोहन गुप्ता
कंपनी सचिव एवं अनुपाल अधिकारी

COURT NOTICE
(U/o 5 rule 20 CPC)
In The Court Of Dr. Mandeep Mittal Additional Principal Judge Family Court, Ludhiana
Pramod Ompal Walmiki Vs. Anita Pramod
CNR NO: PBLD01-003523-2020
Next Date: 12-10-2023
Publication Issued To: Anita Pramod Spouse: Sh. Pramod Ompal Walmiki R/o Room No 6, Patil Chaw, Chinchali, Shri Nirmal Sai Apartment, Ghansoli Navi Mumbai, Maharashtra Mob 9730995773
In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent (s) should appear in person or through counsel on 12-10-2023 at 10:00 a.m. For details login to: https://highcourthcd.gov.in/?ts=distct_notice&district=Ludhiana

COURT NOTICE
(U/o 5 Rule 20 CPC)
In The Court Of Sh. Tejpartap Singh Randhawa Civil Judge (Senior Division), Fazilka
Ajay Kumar Vs. M/s R.B. Rice Industries
CNR NO: PBFZC1-000151-2022
Next Date: 09-10-2023
From: Ajay Kumar S/o Satish Kumar R/o Village Anwala Sheekh Subhan Tehsil And Distt. Fazilka Sole Prop. M/s A.K. Enterprises Commission Agent New Grain Market Fazilka
Publication Issued To: 1. M/s.R.B. Rice Industries At Village Rana Tehsil And Distt. Fazilka Its Partner Deepak Kumar Son Of Vinod Kumar And Yuvraj Grover S/O Ashok Kumar 2. Deepak Kumar S/O Vinod Kumar 3. Yuvraj Grover S/O Ashok Kumar C/o R. B. Rice Industries The Brown Rice Company Zamindara Mills, Anmol Colony, Taran GST no bA5YSPG853M122
In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 09-10-2023 at 10:00 a.m. For details login to: https://highcourthcd.gov.in/?ts=distct_notice&district=Fazilka

प्रक्र नं. 3। विनियम-16 (1)(ए)/16(8) देखें।
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रकाश तल एससीओ 33-34-36 सेक्टर-17ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आवंटित किया गया है)

केंस नं.: ओए/952/2023
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत न्यायालयी आदेश (समन्स)
एक्स. नं.: 20261

इंजिन ओवरसीज बैंक लिमिटेड
श्रीमती हन्या प्रिया नायक एवं अन्य

सेवा में,
(1) श्रीमती हन्या प्रिया नायक एवं अन्य
डी/अन्य/एस/ओ-
श्रीमती हन्या प्रियास नायक पत्नी श्री अरुण इमैंग्रुएल निवासी : 4/28, एनसीईआरटी कैंपस, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली - 110016, द्वितीय तल : प्लेट नं. 1001, 10वां तल, टॉवर ब्लॉक-1, बी-2, एवालॉन रंगोली, धारुवड़ा, आरपीएस स्कूल के समीप, सेक्टर 24, धारुवड़ा, जनपद रेवाड़ी, हरियाणा-122106, रेवाड़ी, हरियाणा-122106
अन्य पता : प्लेट नं. 1001, 10वां तल, टॉवर ब्लॉक 1 बी 2 एवालॉन रंगोली धारुवड़ा, आरपीएस स्कूल के समीप, सेक्टर-24, धारुवड़ा, जनपद रेवाड़ी, रेवाड़ी हरियाणा

न्यायालयी आदेश (समन्स)
जबकि, ओए/952/2023 नानोनी पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 19-08-2023 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि, यह मामला अधिकरण सं. 50,52,651/00-1 के ऋणों की वसूली हेतु आगे विचित्र दर्ज अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन (ओए) पर न्यायालयी आदेश यानी समन्स/सूचना निर्गत करके संतुष्ट है (प्रत्येक इत्यादि की प्रतियाँ के साथ आवेदन संसंधन हैं)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप, यानी कि प्रतिवादीयों को, निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-
(i) न्यायालयी आदेश यानी समन्स प्रसारित होने के तीस दिवसों के अंदर कारण बताए/विचार किए जिस राहत हेतु प्रार्थना की गई है उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(ii) आवेक द्वारा मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई संघर्षियों एवं परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य संघर्षियों अथवा परिस्थितियों के विवरण प्रकट करें;

(iii) संघर्षियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निराकरण के लक्षित रहने तक, आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत परिस्थितियों या ऐसी अन्य परिस्थितियों और संघर्षियों का लेन-देन करने या निराकरण करने से रोका गया है;

(iv) आप, अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी, घड़े के माध्यम से या अन्यथा, अपने व्यवसाय के सामान्य कार्यों के अलावा, किसी भी ऐसी परिस्थिति, इन दिवसों के लिए सुचित किया गया है, को और/या मूल आवेदन-पत्र के क्रमांक 3ए के तहत विनिर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिस्थितियों एवं संघर्षियों को, हस्ताक्षरित नहीं करेंगे।

(v) आप, व्यवसाय के सामान्य कार्यों के तहत प्रतिभूत परिस्थितियों या अन्य परिस्थितियों और संघर्षियों की प्रकृति से प्राप्त किसी आगे के लिए इतिमंजर होतें और ऐसी किसी आगे की ओ, ऐसी परिस्थितियों पर प्रतिकूल हित धारण करनेवाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास अनुचित खर्च में उन्मा करेंगे।

आपको, आवेक को एक प्रति प्रेषित करने के दायित्व निर्वहन के साथ, लिखित विवरण प्रस्तुत करने और 29-12-2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और आगे अनुचितित में निर्णय ले लिया जाएगा।

आज दिनांक 08-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुद्रा के अंतर्गत निम्न।
न्यायालयी आदेश (समन्स) निर्गत नहें प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

FORM No. 5
THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
Summons for filing Reply & Appearance by Publication
Date: 25/08/2023
No. Date: 25/08/2023
[Summons to defendant under Section 19(3), of the Recovery of Debts due and Bankruptcy, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)]
Application No. & Year
OA No. 158 of 2023
Punjab National Bank ...Applicant
M/s Sha & Sons and others Versus ...Defendants To,
1. M/s Sha & Sons Proprietorship Firm Through Proprietorship Bhoore Khan, R/o 17/101-D Thakur Wali Gali, Mulla para Bhujpura Aligarh 202001.
2. Bhoore Khan S/o Chand Khana R/o 17/101-D Thakur Wali Gali, Mulla para Bhujpura Aligarh 202001.
3. Shaheeda Begam W/o Bhoore Khan R/o 17/101-D Thakur Wali Gali, Mulla para Bhujpura Aligarh 202001.
In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in four sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorised agent or legal practitioner in the Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / duly authorised agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 16/11/2023 at 10.30 A.M, failing which the application shall be heard and decided in your absence.

सम्मान वारंसे करावाढ अमूर तनकोह तलय
(आदेश V नियम 20)
सम्मान-न्यायलय श्री उदय प्रताप सिंह पाठोसीन अधिकारी, कमांडिंग तल-11, पिली पगवात भवन निजक कोतवाली कारना, गौतम बुद्ध नगर
मूल वाद संख्या 360 / 2022
कैनार बैंक, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट कम्पनी है, जिसका मुख्यालय 112, जे सी रोड, बैंगलोर, कर्णाटक में है और इसकी शाखा बैदपुरा, गौतम बुद्ध नगर में है।वादी बनाम
1. नैरस राजे मेडिकल स्टोर O/a धना सेनी, पोस्ट ऑफिस बैदपुरा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रोपराइटर श्री सुनेन्दर सिंह
2. श्री सुनेंर सिंह पुत्र स्व० श्री रति राम सिंह निवासी भोलावल (सनुपुरा), गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
3. श्री राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री रति राम सिंह निवासी बैदपुरा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेशप्रतिवादी
हरहाज वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत धनवसूली अंकन 15,75,129.76/- रुपये दायर किया है जिहाज आपका हुकम होता है कि आप बतारीख 25.10.2023 बतक 10 बजे दिन के अखलात या मार्फत वकील के जो एकदम के हातात से कारक वादाई अधिक किया गया हो और कुल उचुरात अहम कुवलिखतका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो की जो जवाब ऐसे सवालतात दे सके हाजिर हो और जवाबदेही दावा की करे और आपका लाज्जो है कि उसी रोज अपने पुमला दस्तावेज पेश करें जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तदान करना चाहते हो। आपको हदिल्लो दी जाती है कि अगर बरोज मजबूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरने हाजिरी आप मसुआओ और फंसला जाते।
बतक मेरे दस्ताखत और मुहर अदातत के आज बतारीख 31.07.2023 जारी किया गया।
आदेशानुसार
मुंसरिम, कमांडिंग ऑफिस कोर्ट, कारना गौतम बुद्ध नगर

सूचना
प्रपत्र क्र. आएनसी-२६
(कंपनी (निगम) नियम, २०१४ के नियम ३० के अनुसार में)
कर्म होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राधानोरी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थलांतरित करने के मामले में।
केंद्र शासन
मा. क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष
बी-२, दूसरी मंजिल, पंत दोनदयाल अन्वयोदय भवन, सेजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ११०००३
कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १३, कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १३ (ख) एवं कंपनी (स्थाना) नियम २०१४ के नियम ३०(4) (ए) के मामले में।
नाम
कर्म होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, १२, निगामुद्दिन पूर्व, नई दिल्ली दक्षिण, दिल्ली ११००१३, CIN: U65999DL2015PTC280557 आवेक कंपनी
आम जनता को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि, शुक्रवार दिनांक २५ अगस्त २०२३ को आयोजित धारणा आम बैठक में पाठित विवेक प्रकरण के अनुसार कंपनी उनके अधिसूच संस्थापना लेख में परिवर्तन करने हेतु मानना करने के लिए कागज, क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १३ अंतर्गत आवेदन देना प्रस्तुत कर रही है नाकि कंपनी को उनका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राधानोरी क्षेत्र, दिल्ली" से कंपनी निबंधक, उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थलांतरित करना संभव हो सके।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत परिवर्तन की बतक से किसी भी व्यक्तों के हितसंबंध बाधित होने की संभावना हो, तो वे उनको आपात MCA-21 Portal (www.mca.gov.in) पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भेजें या कंपनी को व्यवस्था करें या पंजीकृत डाक द्वारा भेजें और उसके समन्वय में उनके हितसंबंध एवं विवेक का आधार देते हुए हस्तक्षेप, मा. क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली यहाँ पर इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से चौदह दिन के भीतर भेजें और उसकी प्रतिलिपी आवेक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय में भेजें।
१२, निगामुद्दिन पूर्व, नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली ११००१३
आवेक कंपनी
कर्म होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए और तबक से
हस्ताक्षर /-
हेमंत साप्रा
निदेशक

केन फिन होम्स लि.
ची-18, परम प्लाजा, आरडीसी, गाजियाबाद, यूपी 201001 | टेलि. : 0120-4086067 | मोबाईल: 7625079222
E-mail : ghazlabad@canfinhomes.com, CIN:L85110KA1987PLC008699

मांग सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (सरफासी ऐक्ट) की धारा १३(२) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ (नियमावली) के नियम ३(१) के अधीन

जबकि ओहोस्ताक्षरी ने, केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफासी ऐक्ट के अधीन और उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना जारी की थी, जिसमें यह नीचे सूचीबद्ध कर्जदारों / गारंटर्स (इसमें आगे 'उक्त कर्जदार' कहे गए हैं) से, सूचना में वर्णित राशि, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उक्त सूचनाएं डाक कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त के रूप में लौटा दी गई हैं / कर्जदारों द्वारा सम्यक् प्राप्त नहीं की गई हैं। अतएव कम्पनी पूर्ण सावधानी के साथ यह मांग सूचना प्रकाशित करवा रही है (नियम 3(1) के प्राधान्यों के अनुसार)। ओहोस्ताक्षरी द्वारा, अतएव, ये सूचनाएं, उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पत्तों के पत्तियों पर बरपा करवा दी गई हैं। संशोधित पत्तियों द्वारा ऋण की सम्यक् वापसी के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित आस्तियां कम्पनी के पास बतक रखी गई हैं।

क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर्स का नाम एवं पता	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार दायित राशि*	प्रतिभूति आस्तित्व का वर्णन	एनपीए की तिथि
1.	श्री लोकेश कुमार पुत्र माम चंद (उधारकर्ता) प्लॉट सं. जी-68ए, तुलीय तल, बालाजी एंक्लेव, गोविंद पुरम, गाजियाबाद-201002 श्रीमती सपना पत्नी लोकेश कुमार (सह-उधारकर्ता) प्लॉट सं. जी-68ए, तुलीय तल, बालाजी एंक्लेव, गोविंद पुरम, गाजियाबाद-201002 प्रदीप कुमार सोमर पुत्र मुजा सिंह तोमर (गारंटर) मकान सं.-ई-149/बी, गोविंद पुरम, गाजियाबाद-201002	05.09.2023	₹. 21,17,375/-	प्लॉट नंबर जी-68ए, तीसरी मंजिल, बालाजी एंक्लेव, गोविंद पुरम, गाजियाबाद 201002 उत्तर प्रदेश, माप 100 वर्ग गज सीमाएँ: उत्तर: संपत्ति संख्या जी-68, दक्षिण: संपत्ति जी-69, पूर्व: संपत्ति जितेंद्र, पश्चिम: सड़क 25 फीट चौड़ा	29.08.2023
2.	श्री मोहिन खान पुत्र बुन्दू खान (उधारकर्ता) मकान सं-122, प्रेम नगर, गोशाला फाटक, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, 201001 श्री मो. बुद्धू पुत्र हाकिम (सह-उधारकर्ता) मकान सं-122, प्रेम नगर, गोशाला फाटक, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, 201001 श्री मोहम्मद सलीम पुत्र बुन्दू खान (सह-उधारकर्ता) मकान सं-122, प्रेम नगर, गोशाला फाटक, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, 201001	05.09.2023	₹. 13,76,375/-	मकान नंबर 278, मकान नंबर 39, ओल्ड आब / नगर/ जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201001 सीमाएँ: उत्तर: 8.0 फीट सड़क, दक्षिण: रेलवे ट्रैक, पूर्व: श्री मोहन सिंह का घर, पश्चिम: श्रीमती जीत कौर का घर	29.08.2023

*उपरिवर्णित तिथि से म्युनताप की तिथि तक, सहमत सविदात्मक दरों पर, आगे ब्याज के साथ देय।
एतद्वारा आपसे उपरोक्त राशि का म्युनताप उक्त पर सविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर ओहोस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त कर्जदारों / गारंटर्स का ध्यान, प्रत्यभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उचलबच्च सम्यक के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(6) के प्राधान्यों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
हस्ता. /-
प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लिमिटेड
स्थान: गाजियाबाद

Larsen & Toubro Limited, L 50 House, Ballard Estate, Mumbai -400 001
Tel: +91 22 6752 5656, Fax: +91 22 6752 5858
Website: www.Larsentoubro.com | Email: IGRC@Larsentoubro.com
CIN: L99999MH1946PLC004768 | Company Secretary: Mr. Sivaram Nair A

LARSEN & TOUBRO

ADDENDUM TO PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED AUGUST 26, 2023, PUBLISHED ON AUGUST 28, 2023 FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF LARSEN & TOUBRO LIMITED (THE "COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES ON PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE ("TENDER OFFER") USING THE STOCK EXCHANGE MECHANISM AS PRESCRIBED UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS").

- The Board of Directors ("Board" which expression shall include any committee constituted by the Board to exercise its powers, including powers conferred by this Resolution, at its meeting held on July 25, 2023, approved, subject to approval of the shareholders, the buyback by the Company of up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) equity shares each having a face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) of the Company ("Equity Shares"), representing up to 2.23% of the total paid-up Equity Shares of the Company, at a maximum price of upto ₹ 3,000/- (Rupee Three Thousand only) per Equity Share ("Buyback Price") payable in cash for an aggregate amount of up to ₹ 10,000 crore (Rupees Ten Thousand Crore only) ("Buyback Size"), excluding Transaction Costs, which represents 14.06 % and 11.97 % of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements, respectively, as on March 31, 2023, (which is within the statutory limits of 25% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company, based on both standalone and consolidated financial statements of the Company), from shareholders of the Company as on the record date i.e. September 12, 2023 as determined by the buyback committee ("Buyback Committee") ("Record Date") on a proportionate basis through the "tender offer" route as prescribed under the Buyback Regulations ("the Buyback"). Further, the shareholders of the Company approved the Buyback, by way of a special resolution, through a postal ballot by remote e-voting on August 25, 2023. Subsequently, the Buyback Committee at its meeting held on August 26, 2023, subject to the final buyback price as may be determined in accordance with Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, determined the specific Buyback Price of ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand only) per Equity Share.
- In terms of Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, in case of the buy-back through the tender offer, the Board can till one-working day prior to the Record Date, increase the Buyback Price and decrease the number of securities proposed to be bought back, such that there is no change in the Buyback Size.
- In connection with the Buyback, in accordance with the Buyback Regulations, a public announcement (the "Public Announcement") dated August 26, 2023 was published on August 28, 2023 in all editions of Financial Express, an English national daily, and Jansatta, a Hindi national daily, and Mumbai edition of LokSatta, a regional language daily, in the Public Announcement, the Buyback Price was identified as ₹ 3,000/- (Rupee Three Thousand only) per Equity Share and the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back was up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) Equity Shares.
- Pursuant to Regulation 5(via) of the Buyback Regulations and the resolution passed by the Buyback Committee on September 11, 2023:
 - The Buyback Price has been increased from ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand only) per Equity Share to ₹ 3,200/- (Rupees Three Thousand Two Hundred only) and
 - The maximum number of Equity Shares proposed to be bought back by the Company has been reduced from 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) fully paid-up Equity Shares to 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) fully paid-up Equity Shares representing up to 2.22% of the total paid-up equity shares of the Company.
- In this context, the Company is making an addendum to the Public Announcement. This addendum ("Addendum") is in continuation of and should be read in conjunction with the Public Announcement published in all editions of Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Mumbai edition of LokSatta (Marathi) on August 28, 2023 in connection with the offer for Buyback of Equity Shares of the Company. The capitalized terms and abbreviations used in this Addendum have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement, unless otherwise specified.

- 6.1 The opening paragraph of the Public Announcement shall be replaced with:**
- "OFFER TO BUYBACK UP TO 3,12,50,000 (THREE CRORE TWELVE LAKH FIFTY THOUSAND) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2/- (RUPEES TWO ONLY) EACH OF THE COMPANY FROM THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES AS ON THE RECORD DATE ON A PROPORTIONATE BASIS BY WAY OF TENDER OFFER ROUTE USING STOCK EXCHANGE MECHANISM AT A PRICE OF ₹ 3,200/- (THREE THOUSAND TWO HUNDRED ONLY) PER EQUITY SHARE ("BUYBACK OFFER PRICE" OR "BUYBACK PRICE") FOR AN AGGREGATE CONSIDERATION OF UPTO ₹ 10,000 CRORE (RUPEES TEN THOUSAND CRORE ONLY)."
- 6.2 The paragraph 1.1 of the Public Announcement shall be replaced with the following:**
"The Board of Directors of the Company at its meeting held on July 25, 2023 ("Board" which expression shall include any committee constituted by the Board to exercise its powers, including the powers conferred by this Resolution) had approved, subject to approval of the shareholders, the buyback by the Company of 3,33,33,333 of its fully paid-up equity shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each ("Equity Shares"), from the members of the Company at a maximum price of up to ₹ 3,000/- (Three Thousand only) per Equity Share, subject to any increase to the Buyback Offer Price as may be approved by the Board and/or the committee thereof, payable in cash for an aggregate consideration of up to ₹ 10,000 crore (Rupees Ten Thousand Crore only) ("Buyback Size") excluding transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as, Buyback tax, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc. which will not exceed 25% of the aggregate of the paid-up share capital and free reserves as per the audited standalone or consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2023, whichever sets out a lower amount, out of the free reserves or securities premium account of the Company and/or such other source as may be permitted by the Buyback Regulations or the Companies Act, 2013, as amended ("Act"), from the shareholders of the Company, as on the record date i.e. September 12, 2023 as determined by the buyback committee ("Buyback Committee") ("Record Date"), on a proportionate basis, through the Tender Offer route using stock exchange mechanism as prescribed under the Buyback Regulations. Subsequently, the Buyback Committee at its meeting held on September 11, 2023 pursuant to Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, increased the specific price at which the Buyback may be made ("Specific Buyback Price") from ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand only) per Equity Share to ₹ 3,200 (Rupees Three Thousand Two Hundred and Two) and altered the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back by the Company and reduced the same from up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three only) fully paid-up Equity Shares to up to 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) fully paid-up Equity Shares representing up to 2.22% of the total paid-up equity shares of the Company. ("Buyback")."

- 6.3 Paragraph 1.5 of the Public Announcement shall be replaced with:**
"As per Regulation 4(i) of the Buyback Regulations, the Buyback Size is within the statutory limit of 25% of the aggregate of the fully paid-up capital and free reserves of the Company based on the standalone financial statements or consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2023, whichever sets out a lower amount. The Equity Shares proposed to be bought represent 2.22% of the total number of Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company, as on March 31, 2023."

- 6.4 Paragraph 3 of the Public Announcement shall be replaced with:**
"The Company proposes to buyback up to 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) Equity Shares."

- 6.5 Paragraph 4.1 of the Public Announcement shall be replaced with:**
"The Equity Shares of the Company are proposed to be bought back at ₹ 3,200/- (Rupees Three Thousand Two Hundred only) per Equity Share. The Buyback Offer Price has been arrived at after considering various factors including but not limited to the earnings per share, price earnings ratio, impact on the net worth of the Company, the trends in the volume weighted average prices and the closing price of the Equity Shares at BSE and NSE where the Equity Shares are listed and other financial parameters. The final Buyback Offer Price has been finalized by the Buyback Committee of the Board appointed for this purpose based on a premium over the daily average of the closing price on BSE and NSE in the immediately preceding two weeks" and the date of Buyback Committee meeting held on Monday, September 11, 2023."

- 6.6 Paragraph 4.2 of the Public Announcement shall be replaced with:**
The Buyback Price represents:
i. Premium of 38.48% and 38.00% to the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and on NSE, respectively, during the three months preceding July 20, 2023, being the date of intimation to the Stock Exchanges of the date of the Board Meeting to consider the proposal of the Buyback ("Intimation Date").
ii. Premium of 28.30% and 28.30% over the closing price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, as on July 19, 2023, which is a day preceding the Intimation Date.
iii. Premium of 16.57% and 16.57% over the daily average of the closing market price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, in the immediately preceding two weeks' prior to the date of Buyback Committee meeting.
iv. Premium of 10.57 % and 10.57 % over the closing market price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, on the date of Buyback Committee meeting.

- 6.7 Paragraph 7.11 of the Public Announcement shall be replaced with:**
The number of equity shares proposed to be purchased under the Buyback i.e. 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand), does not exceed 25% of the total number of equity shares in the paid-up equity share capital as on March 31, 2023

- 6.8 The maximum number of Equity Shares proposed to be purchased under the Buyback shall be replaced with:**
"3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) Equity Shares"

- 7. Except as detailed in this Addendum, all other information and terms of Buyback as disclosed in the Public Announcement remain unchanged.**

A copy of this Addendum will be available on the website of the Company at www.Larsentoubro.com, websites of the Managers to the Buyback at www.jmbf.com and www.axiscapital.co.in, website of the Registrar to the Buyback at www.karisma.kfintech.com, website of SEBI at www.sebi.gov.in and the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For and on behalf of the Board of Directors of Larsen & Toubro Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
S. N. Subrahmanyam Chief Executive Officer & Managing Director DIN: 02255382	R. Shankar Raman Whole-time Director & Chief Financial Officer DIN: 00019798	Mr. Sivaram Nair A Company Secretary & Compliance Officer Membership No: F3939

Place: Mumbai
Date: September 11

पूर्व लिबियात दोन हजार पूरबळी

कैरो : पूर्व लिबियात आलेल्या महापुरामुळे सुमारे दोन हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पूर्व लिबियाचे पंतप्रधान ओसामा हमद यानीही अलमसर दूरचित्रवाणीला दिलेल्या मुलाखतीत डेरना शहरातील पूरबळीची संख्या दोन हजारार गेल्याचे आणि हजारो लोक बेपत्ता असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, डॅनयल वादळाचा फटका पूर्व लिबियाला बसल्यानंतर संपूर्ण डेरना शहराला पुराने वेढले. या शहराला 'आपत्ती क्षेत्र' जाहीर करण्यात आले आहे. बायदा, डेरना ही शहरे पुराने उद्ध्वस्त झाली आहेत.

उत्तर प्रदेशात पावसाचे १९ बळी

लखनौ : उत्तर प्रदेशात २४ तासांमध्ये पडलेल्या पावसात १९ जणांचा मृत्यू झाला. राज्याच्या मध्य भागात पडलेल्या या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. हरदोई येथे चार, बाराबाकी येथे तीन, प्रतापगढ आणि कन्नौज येथे प्रत्येकी दोन, अमेठी, देवरिया, जालौन, कानपूर, उन्नाव, संभल, रामपूर आणि मुझफ्फरनगर या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक एक मृत्यूची नोंद झाली.

भारत-सौदी अरेबिया भागीदारी जागतिक स्थैर्यासाठीही महत्त्वाची

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

पीटीआय, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्यात सोमवारी द्विपक्षीय व्यापार आणि संरक्षण कराराला चालना देण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. प्रादेशिक आणि जागतिक स्थैर्य आणि कल्याणासाठी भारत-सौदी अरेबिया यांच्यातील भागीदारीचे महत्त्व पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत अधोरेखित केले. सौदी अरेबिया हा भारताचा सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार असल्याचे नमूद करून मोदी म्हणाले की, दोन्ही देश बदलत्या काळानुसार आपल्यातील द्विपक्षीय संबंधांना नवे आयाम देत आहेत. दोन्ही नेत्यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत-सौदी अरेबिया स्ट्रॅटॅजिक पार्टनरशिप कौन्सिलची पहिली बैठकही झाली. या बैठकीत मोदी आणि बिन सलमान यांनी द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेतला. काही गंभीर स्वरूपाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आपणखी वाढवण्याच्या उद्देशाने आजच्या बैठकीतूनही आमच्या संबंधांना एक नवी दिशा आणि ऊर्जा मिळणार आहे.



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत चर्चा केली.

“अनेक उपक्रमांमुळे भारत-सौदी अरेबियातील भागीदारी पुढच्या टप्प्यावर गेली आहे. आजच्या बैठकीतूनही आमच्यातील मैत्रीला एक नवी दिशा मिळेल. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

स्थापना करण्यात आली होती. बैठकीतील आपल्या प्रारंभिक भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले की अनेक उपक्रमांमुळे आमची भागीदारी पुढच्या टप्प्यावर गेली आहे. आजच्या बैठकीतूनही आमच्या संबंधांना एक नवी दिशा आणि ऊर्जा मिळणार आहे. चर्चेपूर्वी, राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात बिन सलमान यांचे औपचारिक स्वागत करण्यात आले. भारतात आल्याने मला खूप आनंद झाला आहे. जी-२० शिखर परिषदेबद्दल मी भारताचे अभिनंदन करतो, असे बिन सलमान यांनी पत्रकारांना सांगितले.

उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम लवकरच रशिया दौऱ्यावर

सेऊल : उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम उन जोंग रशियाला भेट देणार असल्याची माहिती दोन्ही देशांतर्फे सोमवारी देण्यात आली. या बैठकीमध्ये किम उन जोंग हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहेत. या भेटीत उत्तर कोरियाकडून रशियाला शस्त्रांसाठी पूरक दारूगोळ्याचा पुरवठा केला जाण्याबद्दल चर्चा होईल, अशी चिंता अमेरिकेसह इतर पाश्चिमात्य देशांना वाटत आहे.

‘चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई’

राजमहेंद्रवरम कारागृहात रवानगी

पीटीआय, विजयवाडा

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन यांना भ्रष्टाचाराबद्दल धारेवर धरल्यानेच चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आली, असा आरोप तेलुगु देशमचे नेते केसरी चिन्नी यांनी केला आहे. दरम्यान, चंद्राबाबू नायडू यांना राजमहेंद्रवरम येथील मध्यवर्ती कारागृहात आणण्यात आले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळाप्रकरणी विजयवाडा न्यायालयाने ७३ वर्षीय चंद्राबाबू नायडू यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. जनतेचा पैसा लुटत आहे. अशावेळी त्यांना प्रश्न विचारल्यानेच कारवाई करण्यात आली. आंध्र प्रदेशच्या इतिहासातील हा काळा दिवस असल्याची टीका तेलुगु देशमच्या नेत्यांनी केली आहे. नायडू यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ हैदराबाद येथे निदर्शने करण्यात आली. चित्तूर जिल्ह्यात एका बसवर दगडफेक करण्यात आली. आंदोलकांनी रस्त्यावर टायर जाळून अटकेचा निषेध केला.

कर्नाटकात डेग्यूचे ७००० रुग्ण

बंगळूर : कर्नाटकात डेग्यूचे सात हजारपेक्षा जास्त रुग्ण असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी सोमवारी दिली. यापैकी चार हजारपेक्षा जास्त रुग्ण एकट्या बंगळूर शहरात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी समाजाध्यक्षांवरून यासंबंधी माहिती दिली. आजार पसरू नयेत यासाठी खबरदारी घेण्यात येत आहे.

काश्मीरमध्ये दहशतवादी भर्तीचे प्रयत्न उघड

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरमधील बरामुल्ला जिल्ह्यात दहशतवाद्यांचे भर्तीचे प्रयत्न उघड झाले. या प्रकरणात तीन जणांना अटक झाली आहे.

जाहीर नोटीस

मे. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, इस्लामपूर यांचे कोर्टाने एड. श्री. एन. वी. पवार इस्लामपूर ना. वाळवा, जि. सांगली येथे, दि. अ. नं. ८५/२०१४ मध्ये श्री. शिवाजी दत्त भोसले - अपेलंट / मूळ वादी विरुद्ध ईड-४) सी. सावली वाळकृष्ण शेवाळे वय ४८, धंदा. घरकाम, रा. अंधेरी पश्चिम, सात बंगला, आर्य समाज मंदिरासमोर, हनुमान भंदिरा शेजारी, पोलीस क्वार्टर, - रिस्यूंड / मूळ वादी मुंबई अपेलंट यांनी वर नमूद रिस्यू. नं. १३४/२०१४ याचेसह इतर रिस्यूंड यांचे विरुद्ध इस्लामपूर येथील मे. अति. जिल्हा व सत्र न्यायाधीशासोबत यांचे कोर्टाने र. दि. अ. नं. ८५/२०१४ ये दाखल केलेले असून त्याबाबत आणखी काही लेखी अथवा मौखी हकमत अथवा तक्रार नोंदविणेची अखत्यारिता दि. ११/१०/२०२३ रोजी नेमले तारखेस सकाळी ठिक ११.०० वाजता स्वतः अपर बंकिंगामार्फत हजर राहून हकमत नोंदवावी. आपण वर नेमले तारखेस हजर व राहिलेस आपले अनुपस्थितीची अर्जातच सुनावणीचे काम पुढे चालविणेत येईल. याची नोंद घ्यावी. म्हणून दिलेले नोटीस नोंद घ्यावी.

शिक्का अधिकृत

मे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, इस्लामपूर
दिनांक : ०७/१०/२०२३
सहस्र : इस्लामपूर

महाराष्ट्र शासन

विज्ञान संस्था

नॅक प्रमाणित दर्जा 'अ' श्रेणी

(Institute With Potential For Excellence)

१५ मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२
०२२-२२८२९२९३, २२८४४२९१

web - www.iscmumbai.ac.in Email ID - iscmdirector@gmail.com

क्र.वि.सं.मु-२०२३/तासिका तत्त्वावर/आस्था दिनांक : ०८.०९.२०२३

शासकीय विज्ञान संस्था, १५ मादाम कामा रोड, फोर्ट, मुंबई येथे खालील विज्ञान विषयांमध्ये (पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी) तासिका तत्त्वावर अध्यापकांच्या नेमणुकांकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तरी इच्छुकांनी दिनांक २० सप्टेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कार्यालयात आवश्यक त्या प्रमाणपत्रांसहित अर्ज सादर करावेत. विषयांची नावे - वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, जीवसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र (भौतिक, कार्बनी, अकार्बनी, वैश्लेषिक) संस्थेत अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर विभागाकडून अर्जाची छाननी करून आवश्यकतेनुसार तासिका तत्त्वावरील पात्र उमेदवारांना मुलाखतीची तारीख व वेळ कळविण्यात येईल.

सही/-
प्र. संचालक
विज्ञान संस्था, मुंबई

डीजीआयपीआर-२०२३-२४/३४५८

ई-जाहीर निविदा

कार्यालयाचे नाव : चिपळूण नगर परिषद,
ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी

ई-निविदा मागविणारी सूचना क्र. १० सन २०२३-२४

चिपळूण नगर परिषदेकडील ई-निविदा सूचना क्र. १० सन २०२३-२४ अन्वये चिपळूण नगर परिषद डॉपिंग ग्राऊंडवरील साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करणे कामाकरिता व-१ नमुन्यातील ई-निविदा प्रणालीद्वारे ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत. सदर निविदाबाबतचा सविस्तर तपशील, अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासनाचे <https://www.mahatenders.gov.in/> या संकेतस्थळावर दिनांक १२.०९.२०२३ रोजीपासून पाहण्यास उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख दि. १२.०९.२०२३ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत राहिली. दिनांक : ११.०९.२०२३

सही/-
प्रशासक
तथा मुख्याधिकारी
चिपळूण नगर परिषद, चिपळूण

बृहत्मुंबई महानगरपालिका

नं. डेग्यू, चौक इ./ एसपी ५२०४/ पीअॅडव्ही ई-टेंडर नं. ११/ नोटीस नं. ११, २०२३-२४, दि. ०८.०९.२०२३

ई-निविदा सूचना

विभाग	मुख्य अभियंता (सौरवेज प्रोजेक्ट)
उप-विभाग	उप मुख्य अभियंता (सौरवेज प्रोजेक्ट) पीअॅडव्ही
निविदा क्र.	नं. डेग्यू चौक इ./ एसपी/ ११/ पीअॅडव्ही/ ई-टेंडर नं. २०२३-२४
निविदा आयदी	२०२३ एससीबीएम २३२३७९
विषय	आर/ दक्षिण वॉर्डमधील बोसोपाडा रोड व दत्त मॉडर रोड, कांदिवली (प.)च्या जंक्शनकरिता सनराईव चारकोप टॉवरसमोर म्युनिसिपल एमएचडील ओपन कट मेथडद्वारा ६००एमएम डाया आरसीसी एलपी३ पाईप सोडर लाईनची तसेच व टाकणे. १२.०९.२०२३ रोजी स. ११.०० वा. पासून ते २२.०९.२०२३ रोजी दु. ०२.०० वा. पर्यंत https://mahatenders.gov.in
निविदा विक्री	या निविदा सूचनेसंबंधित एस. ई. (एस.पी.) पीअॅडव्ही
महाराष्ट्र पोर्टल	कोणत्याही माहितीकरिता मुंबई संपर्क साधू शकाल
ए. नाव	श्री. श्रीजांत पाटील
बी. कार्यालय	०२२-२४९५७१३
टेलिफोन नं.	
सी. मोबाईल नं.	९४०४४५०६७३
डी. ईमेल आयडी	ecpdws.sp@mcmgm.gov.in

स्वाक्षरी /-
उप मुख्य अभियंता (सौरवेज प्रोजेक्ट)
प्लॅनिंग अँड डिझाइन

पीआरओ/१४८५/एडीव्ही/२०२३-२४

अभ्युदय को-ऑप. बँक लि.

(मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक)

नोंदणीकृत कार्यालय : ३६/२५१२, अभ्युदय नगर, जी. डी. आंबेकर मार्ग, मुंबई - ४०००३३

सभासदना सूचना

सर्व सभासदना सूचना देण्यात येते की अभ्युदय को-ऑप. बँक लिमिटेडची ६० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी १०:०० वाजता, अभ्युदय बँक हॉल, अभ्युदय बँक बिल्डिंग, पहिला मजला, सेक्टर १७, वाशी, नवी मुंबई-४००७०३ येथे घेण्यात येणार आहे. सभेपूर्वीच कामकाजाचे विषय खालील प्रमाणे आहेत.

- दिनांक २० जुलै, २०२२ रोजी झालेल्या ५९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन.
- दिनांक ३१ मार्च, २०२३ वर्ष अखेरचा लेखापरिचित ताळेबंद व नफातोटा पत्रक, संचालक मंडळाचा अहवाल व वैधानिक लेखापरिक्षकांचा अहवाल यांस मान्यता देणे.
- २०२२-२३ या वर्षाचा दीर्घ नमुन्यातील लेखापरिक्षीत अहवाल (LFAR) आणि तदनुसार त्यावर केलेल्या कार्यवाहीस मंजूरी देण्याचे अधिकार संचालक मंडळास देणे.
- २०२३-२४ या वर्षासाठी वैधानिक लेखापरिक्षकांची नियुक्ती करणे व त्यांचा मेहनताना ठरविण्याचे अधिकार संचालक मंडळास देणे.
- २०२३-२४ वर्षाच्या आर्थिक अंदाजपत्रकास मान्यता देणे.
- ६० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेस हजर नसलेल्या सभासदांची, जी क्वीची नावे ६० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हजेरी बुकात सभेस उपस्थित म्हणून नाहीत, अशा सभासदांची गैरहजेरी माफ करणे.
- अध्यक्षांच्या परवानगीने येणारे इतर विषय.

हनुकुमारन
पी. एस. सालियन
व्यवस्थापकीय संचालक

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२३

नोंद:-

- सभेच्या नियोजित वेळेपासून अर्ध्या तासात आवश्यक ती गणसंख्या नसेल तर सभा उपविधी क्रमांक ३१ (iii) नुसार तहकूब करण्यात येईल व अशी तहकूब केलेली सभा त्याच दिवशी त्याच ठिकाणी सकाळी १०:३० वाजता घेण्यात येईल व त्या सभेमध्ये कामकाजाचे दिलेले विषय हाताळण्यात येतील. त्या सभेस गणसंख्येचे बंधन राहणार नाही.
- सभासदानी वार्षिक जमाखर्च / ताळेबंद पत्रकासंबंधी कोणत्याही प्रकारची माहिती हवी असल्यास त्यांनी तसे व्यवस्थापकीय संचालक यांना के. के. टॉवर, जी. डी. आंबेकर मार्ग, परेल व्हिलेज, मुंबई-४०००१२ येथे दिनांक २० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत लेखी कळवावे, जेणेकरून आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देता येईल.
- बँकेचे ओळखपत्र धारण करणाऱ्या सभासदांनाच वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होता येईल. ज्या सभासदांनी अजूनही ओळखपत्र प्राप्त केले नसेल त्यांनी आपले दोन "आयकार्ड" आकाराचे फोटो (३ से.मी x २ से.मी.) शेअर डिपॉजिट मध्ये जमा करून आपले ओळखपत्र प्राप्त करून घ्यावे.
- वार्षिक अहवालाची प्रत बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट वर उपलब्ध आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण

मालमत्ता विभाग

निविदा सूचना क्र. ११ (दुसरी मागणी)

सन २०२३-२०२४

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकाचे खालील नमूद वाहनतळ महापालिकेने निरिचत केलेल्या दरानुसार पे अँड पार्क या धर्तीवर ३ वर्षे कालावधीकरिता चालविण्यास देण्याकामी अनुभवी इच्छुक व्यक्ती/ संस्था यांच्याकडून "ई-टेंडर" पध्दतीने जाहीर निविदा मागविण्यात येत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	किमान आधारभूत किंमत	निविदा अनामत रकम	निविदा फॉर्म फी
१	कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण येथील आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे रंगमंदिरातील वाहनतळ चालविण्याकामी टेक्रेदार नियुक्त करण्याबाबत.	३०,००,०००/-	१,००,०००/-	रु. ५,०००/- (१८ टक्के जीएसटी) एकूण रु. ५,९००/-

- निविदा विक्री दि. १२.०९.२०२३ ते २६.०९.२०२३ वेळ सायंकाळी ०३.०० वाजेपर्यंत राहिली.
- निविदा स्वीकृती दि. १२.०९.२०२३ ते २६.०९.२०२३ वेळ सायंकाळी ०३.०० वाजेपर्यंत राहिली.
- शक्य झाल्यास दि. २९.०९.२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता "ई-टेंडरिंग विभाग नागरिक सुविधा केंद्र" येथे उघडण्यात येईल.
- निविदा महापालिकेच्या www.mahatenders.gov.in या वेबसाइटवरून विक्री व स्वीकृती करता येतील.

आलेल्या एक अथवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार मा. आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांनी राखून ठेवलेला आहे. जा.क्र. कडॅमपा/नसवि/मुका/५८० (स्वाक्षरी/- व्दना गुळवे)
उप आयुक्त (मालमत्ता)
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका.

Larsen & Toubro Limited, L&T House, Ballard Estate, Mumbai - 400 001

Tel: +91 22 6752 5656, Fax: +91 22 6752 5858

Website: www.Larsentoubro.com | Email: IGRC@Larsentoubro.com

CIN: L99999MH1946PLC004768 | Company Secretary: Mr. Sivaram Nair A

LARSEN & TOUBRO

ADDENDUM TO PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED AUGUST 26, 2023, PUBLISHED ON AUGUST 28, 2023 FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF LARSEN & TOUBRO LIMITED (THE "COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES ON PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE ("TENDER OFFER") USING THE STOCK EXCHANGE MECHANISM AS PRESCRIBED UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("BUYBACK REGULATIONS").

- The Board of Directors ("Board") which expression shall include any committee constituted by the Board to exercise its powers, including powers conferred by this Resolution, at its meeting held on July 25, 2023, approved, subject to approval of the shareholders, the buyback by the Company of up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) equity shares each having a face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) of the Company ("Equity Shares"), representing up to 2.37% of the total paid-up Equity Shares of the Company, at a maximum price of upto ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand only) per Equity Share ("Buyback Price") payable in cash for an aggregate amount of up to ₹ 10,000 crore (Rupees Ten Thousand Crore only) ("Buyback Size"), excluding Transaction Costs, which represents 14.06 % and 11.97 % of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements, respectively, as on March 31, 2023, (which is within the statutory limits of 25% of the aggregate of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company, based on both standalone and consolidated financial statements of the Company), from shareholders of the Company as on the record date i.e. September 12, 2023 as determined by the Buyback Committee ("Buyback Committee") ("Record Date") on a proportionate basis through the tender offer route as prescribed under the Buyback Regulations ("Buyback"). Further, the shareholders of the Company approved the Buyback, by way of a special resolution, through a postal ballot by remote e-voting on August 25, 2023. Subsequently, the Buyback Committee at its meeting held on August 26, 2023, subject to the final buyback price as may be determined in accordance with Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, determined the specific Buyback Price of ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand Only) per Equity Share.
- In terms of Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, in case of the buy-back through the tender offer, the Board can till one working day prior to the Record Date, increase the Buyback Price and decrease the number of securities proposed to be bought back, such that there is no change in the Buyback Size.
- In connection with the Buyback, in accordance with the Buyback Regulations, a public announcement (the "Public Announcement") dated August 26, 2023 was published on August 28, 2023 in all editions of Financial Express, an English national daily, and Jansatta, a Hindi national daily, and Mumbai edition of LokSatta, a regional language daily. In the Public Announcement, the Buyback Price was identified as ₹ 3,000/- (Rupee Three Thousand only) per Equity Share and the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back was up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) Equity Shares.
- Pursuant to Regulation 5(via) of the Buyback Regulations and the resolution passed by the Buyback Committee on September 11, 2023:
 - The Buyback Price has been increased from ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand only) per Equity Share to ₹ 3,200/- (Rupees Three Thousand Two Hundred only) and
 - The maximum number of Equity Shares proposed to be bought back by the Company has been reduced from 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) fully paid-up Equity Shares to 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) fully paid-up Equity Shares representing up to 2.22% of the total paid-up equity shares of the Company.
- In this context, the Company is making an addendum to the Public Announcement. This addendum ("Addendum") is in continuation of and should be read in conjunction with the Public Announcement published in all editions of Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Mumbai edition of LokSatta (Marathi) on August 28, 2023 in connection with the offer for Buyback of Equity Shares of the Company. The capitalized terms and abbreviations used in this Addendum have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement, unless otherwise specified.

Equity Shareholders are requested to note the following amendments in the Public Announcement:

6.1 The opening paragraph of the Public Announcement shall be replaced with:

"OFFER TO BUYBACK UP TO 3,12,50,000 (THREE CRORE TWELVE LAKH FIFTY THOUSAND) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2/- (RUPEES TWO ONLY) EACH OF THE COMPANY FROM THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES AS ON THE RECORD DATE ON A PROPORTIONATE BASIS BY WAY OF TENDER OFFER ROUTE USING STOCK EXCHANGE MECHANISM AT A PRICE OF ₹ 3,200/- (THREE THOUSAND TWO HUNDRED ONLY) PER EQUITY SHARE ("BUYBACK OFFER PRICE" OR "BUYBACK PRICE") FOR AN AGGREGATE CONSIDERATION OF UPTO ₹ 10,000 CRORE (RUPEES TEN THOUSAND CRORE ONLY)"

6.2 The paragraph 1.1 of the Public Announcement shall be replaced with the following:

"The Board of Directors of the Company at its meeting held on July 25, 2023 ("Board") which expression shall include any committee constituted by the Board to exercise its powers, including the powers conferred by this Resolution) had approved, subject to approval of the shareholders, the buyback by the Company of 3,33,33,333 of its fully paid-up equity shares of face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each ("Equity Shares"), from the members of the Company at a maximum price of up to ₹ 3,000/- (Three Thousand only) per Equity Share, subject to any increase to the Buyback Offer Price as may be approved by the Board and/or the committee thereof, payable in cash for an aggregate consideration of up to ₹ 10,000 crore (Rupees Ten Thousand Crore only) ("Buyback Size") excluding transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as, Buyback tax, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc. which will not exceed 25% of the aggregate of the paid-up share capital and free reserves as per the audited standalone or consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2023, whichever sets out a lower amount, out of the free reserves or securities premium account of the Company and/or such other source as may be permitted by the Buyback Regulations or the Companies Act, 2013, as amended ("Act"), from the shareholders of the Company, as on the record date i.e. September 12, 2023 as determined by the buyback committee ("Buyback Committee") ("Record Date"), on a proportionate basis, through the Tender Offer route using stock exchange mechanism as prescribed under the Buyback Regulations. Subsequently, the Buyback Committee at its meeting held on September 11, 2023 pursuant to Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, increased the specific price at which the Buyback may be made ("Specific Buyback Price") from ₹ 3,000/- (Rupees Three Thousand only) per Equity Share to ₹ 3,200 (Rupees Three Thousand Two Hundred only) and altered the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back by the Company and reduced the same from up to 3,33,33,333 (Three Crore Thirty Three Lakh Thirty Three Thousand Three Hundred and Thirty Three) fully paid-up Equity Shares to up to 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) fully paid-up Equity Shares representing up to 2.22% of the total paid-up equity shares of the Company. ("Buyback")."

6.3 Paragraph 1.5 of the Public Announcement shall be replaced with:

"As per Regulation 4(i) of the Buyback Regulations, the Buyback Size is within the statutory limit of 25% of the aggregate of the fully paid-up capital and free reserves of the Company based on the standalone financial statements or consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2023, whichever sets out a lower amount. The Equity Shares proposed to be bought represent 2.22% of the total number of Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company, as on March 31, 2023."

6.4 Paragraph 3 of the Public Announcement shall be replaced with:

"The Company proposes to buyback up to 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) Equity Shares."

6.5 Paragraph 4.1 of the Public Announcement shall be replaced with:

"The Equity Shares of the Company are proposed to be bought back at ₹ 3,200/- (Rupees Three Thousand Two Hundred only) per Equity Share. The Buyback Offer Price has been arrived at after considering various factors including but not limited to the earnings per share, price earnings ratio, impact on the net worth of the Company, the trends in the volume weighted average prices and the closing price of the Equity Shares at BSE and NSE where the Equity Shares are listed and other financial parameters. The final Buyback Offer Price has been finalized by the Buyback Committee of the Board appointed for this purpose based on a premium over the daily average of the closing price on BSE and NSE in the immediately preceding two weeks" and the date of Buyback Committee meeting held on Monday, September 11, 2023."

6.6 Paragraph 4.2 of the Public Announcement shall be replaced with:

The Buyback Price represents:

- Premium of 38.48% and 38.00% to the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and on NSE, respectively, during the three months preceding July 20, 2023, being the date of intimation to the Stock Exchanges of the date of the Board Meeting to consider the proposal of the Buyback ("Intimation Date").
- Premium of 28.30% and 28.30% over the closing price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, as on July 19, 2023, which is a day preceding the Intimation Date.
- Premium of 16.57% and 16.57% over the daily average of the closing market price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, in the immediately preceding two weeks' prior to the date of Buyback Committee meeting.
- Premium of 10.57 % and 10.57 % over the closing market price of the Equity Shares on BSE and NSE, respectively, on the date of Buyback Committee meeting.

6.7 Paragraph 7.11 of the Public Announcement shall be replaced with:

The number of equity shares proposed to be purchased under the Buyback i.e. 3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) does not exceed 25% of the total number of equity shares in the paid-up equity share capital as on March 31, 2023

6.8 The maximum number of Equity Shares proposed to be purchased under the Buyback shall be replaced with:

"3,12,50,000 (Three Crore Twelve Lakh Fifty Thousand) Equity Shares"

Except as detailed in this Addendum, all other information and terms of Buyback as disclosed in the Public Announcement remain unchanged.

A copy of this Addendum will be available on the website of the Company at www.Larsentoubro.com, websites of the Managers to the Buyback at www.jmfi.com and www.axiscapital.co.in, website of the Registrar to the Buyback at www.karisma.kfintech.com, website of SEBI at www.sebi.gov.in and the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For and on behalf of the Board of Directors of Larsen & Toubro Limited

Sd/- S. N. Subrahmanyam Chief Executive Officer & Managing Director DIN: 02255382	Sd/- R. Shankar Raman Whole-time Director & Chief Financial Officer DIN: 00019798	Sd/- Mr. Sivaram Nair A Company Secretary & Compliance Officer Membership No: F3939
--	--	--

Place: Mumbai
Date: September 11, 20